




SCHEDULE OF DOOR & WINDOW			
MARK	SIZE	CHL	LINTEL
D	1.07 x 2.10	-	2.10
D1	1.00 x 2.10	-	2.10
D2	0.75 x 2.10	-	2.10
W	1.80 x 1.70	0.90	2.60
W1	1.22 x 1.70	0.90	2.15
W2	91X1.70	0.90	2.15
W3	0.99 x 1.0	2.30	2.60
V	0.61 x 5.0	2.10	2.60

स्वीडिश वुड वर्क के अंशों की जांचो हे कि
भूमि चीनर निर्माण अधिनियम 1976 के
अधिनियम क्षेत्र में चक्का क्षेत्र के बाहर होने
के सम्बन्ध में भी सभी चीनरों की जांचो
कामिब हूई तो यह स्वीडिश निर्माण समिति
जांचो क्षेत्र यह सम्झा जावेगा कि इस
सम्बन्ध में नवीनो कोई स्वीडिश नहीं हो
गीगी ।

यह मानचित्र भू-स्वामित्व से सम्बन्धित
अभिलेख नहीं है और प्रस्तावक/पत्र को
भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता।
प्रस्तावक/पत्र द्वारा दाखिल स्वामित्व अभि-
लेख और शाब्द पत्र मन्त्रि ने कमी भी फर्जी
और असत्य पाये गये तो मानचित्र की स्वी-
कृति निरस्त रामझी जाएगी और यह समझा
जाएगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र पर
कोई स्वीकृति नहीं दी गई है तथा मानचित्र
स्वीकृति के आधार पर प्रस्तावक द्वारा
किया गया कोई निर्माण पूर्णतया अयोग्य
माना जाएगा और इस कृत्य के लिए वह
स्वयं जिम्मेदार होगा।
27/6/2015
नगर अभियन्ता (नगर)
संविदा संख्या 27/6/2015
सहायक सचिव (नगर) कागजी विकास प्रमोशन
बालमो

Scale = 1:100

Typical 1st to 3rd Floor Plan

Proposed Group Housing For
Smt. Vidya Devi w/o Shree Vindhya Vasini Misra
Shree Mritunjay Tripathi s/o Shree Hareram Tripathi
Smt. Kamla w/o Shree Hareram Tripathi
Shree Hareram Tripathi s/o Shree Ram Prikshan Tripathi
Arazi - NO. 36/36
Mauza - Jolha
Pargana - Dehat Amanat
District - Varanasi

Signature Of Owner :-

Signature
Kamla Devi
Hareram Tripathi

Signature Of Architects :-

Signature
M. K. Prasad Singh
B. E. Civil
Institute of Engineer's India

PARKING CALCULATION

* PARKING AREA REQUIREMENT = $3640.84 \times 10 \times 13.73 / 100$

= 499.88 SqM.

* PARKING AREA PROVIDED

$1124.08 + 12.74 \text{ stair} + 116.58 + 13.70 \text{ stair}$

= 1124.08 + 33.08 = 1091.00 SqM.

स्वोक्त इस बात के बावजूद भी कि भवन-नगर में भूमि के स्वामित्व और बाहरी भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम 1976 के अधिनियम क्षेत्र से इसका क्षेत्रफल बाहर होने के सम्बन्ध में भी नवी प्रोपर्टी सर्वे मतलब साफित हुई हो बहु स्वोक्ति निरस्त समझी जायेगी और यह सम्बन्ध में नवी को कोई स्वोक्ति नहीं दी गयीगी।

यह मानचित्र भू-स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख नहीं है और प्रस्तावक/पक्ष को भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता। प्रस्तावक/पक्ष द्वारा दाखिल स्वामित्व अभिलेख और राफ़्ट पत्र मालिकों में कभी भी फ़र्जी और असत्य पाये गये तो मानचित्र की स्वीकृति निरस्त समझी जाएगी और यह समझा जाएगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र पर कोई स्वीकृति नहीं दी गई है तथा मानचित्र स्वीकृति के आधार पर प्रस्तावक द्वारा किया गया कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध माना जाएगा और इस कृत्य के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

27/08 नगर अभियंता (मन) संयुक्त संस्थान विकास प्राधिकरण द्वारा जारी।

Basement Floor Plan

Scale = 1:150

Proposed Group Housing For
Smt. Vidya Devi w/o Shree Vindhya Vasini Misra
Shree Mritunjay Tripathi s/o Shree Hareram Tripathi
Smt. Kamla w/o Shree Hareram Tripathi
Shree Hareram Tripathi s/o Shree Ram Priksan Tripathi
Arazi - NO. 36/36
Mauza - Jolha
Pargana - Dehat Amanat
District - Varanasi

Signature Of Owner -

Kamla Devi
Haram Tripathi

Signature Of Architects -

Mahendra Pratap Singh
B. E. Civil
Institute of Engineer's India
Registration No. - M 127200-6